

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को #1 रैंकिंग मिली

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (28 जुलाई, 2021) – कल, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन (Business Facilities Magazine) की 17वीं एनुअल मेट्रो रैंकिंग्स रिपोर्ट (17th Annual Metro Rankings Report) में, फूड प्रोसेसिंग लीडर्स (Food Processing Leaders) श्रेणी में, लगातार दूसरे वर्ष, पहले स्थान की रैंकिंग के साथ उच्च सम्मान मिला।

ब्रैम्पटन को रैंकिंग की रोजगार, घोषित प्रोजेक्ट्स और हाल ही के विस्तारों की श्रेणियों में उच्च मान्यता मिली है। 2021 की पूरी रैंकिंग्स रिपोर्ट [www.businessfacilities.com](http://www.businessfacilities.com) पर देखी जा सकती है।

ओनटैरियो के फूड क्लस्टर (Food Cluster) के हिस्से के तौर पर, जो उत्तरी अमेरिका (North America) के सबसे बड़े एग्री-फूड (Agri-Food) सेक्टरों में से एक है, ब्रैम्पटन का एक संपन्न फूड और बेवरेज सेक्टर (खानपान संबंधी पदार्थों का सेक्टर) है, जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली तकनीक, उच्च-किस्म के उत्पादों और उपजाऊ खेती परंपरा के द्वारा सहायता प्राप्त है। ब्रैम्पटन का फूड और बेवरेज सेक्टर, फूड टेस्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सुविधाओं के साथ-साथ, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग डिज़ाइन, उपकरण और रेफ्रिजरेशन स्टोरेज के साथ पूरी वन-स्टॉप शॉप है और यह सब शहर के अंदर ही है।

ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर, कैनैडा की जी.डी.पी. (GDP) में वार्षिक तौर पर 1.3 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। फूड और बेवरेज उत्पादन, प्रोसेसिंग और सहयोग इंडस्ट्रीज में लगभग 300 कंपनियों में, 8,500 लोग नौकरी करते हैं।

फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग (Food and Beverage Processing) सेक्टर, ब्रैम्पटन में चार मुख्य सेक्टरों में से एक है। सिटी के मुख्य सेक्टर हैं: फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, एडवांस्ड मेन्युफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing), हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज (Health and Life Sciences) और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (Innovation and Technology)।

ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर में उच्च इम्पलॉयर्स में शामिल हैं, लॉबलॉज (Loblaws), मैपल लॉज फार्म्स (Maple Lodge Farms) और इटालपास्ता (Italtasta)। वैकल्पिक तौर पर, कोका-कोला बॉटलिंग (Coca-Cola Bottling) और गिव एंड गो प्रीपेयर्ड फूड्स जैसे मुख्य इम्पलॉयर्स की, ब्रैम्पटन में फैसिलिटीज हैं। इन सभी कंपनियों ने, शहर की प्रतिभा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट पहुंच का लाभ लेने के लिए, ब्रैम्पटन के अंदर खुद को युक्तिपूर्वक ढंग से स्थापित कर लिया है।

ब्रैम्पटन का फूड और बेवरेज सेक्टर, कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान मजबूत रहा है और यह इस समय के दौरान, सिटी का आर्थिक मजबूती में मुख्य योगदानी रहा है।

ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.investbrampton.ca](http://www.investbrampton.ca) पर जाएं।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर ने कोविड-19 महामारी के दौरान, कैंनेडा के निवासियों की खानपान संबंधी जरूरतों को पूरा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम आवश्यक सेवाओं के सभी श्रमिकों के योगदानों के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस दूसरे लगातार वर्ष के लिए, हमें बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन से फूड प्रोसेसिंग लीडर के तौर पर पहले स्थान की रैंकिंग मिलने पर खास तौर पर गर्व है। यह रैंकिंग, हमारे फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग कारोबारों और उनकी सहायता करने वाली, हमारी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम के द्वारा किए जाने वाले शानदार कार्य की साक्षी है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कारोबारों को प्रभावित किया है और ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर के लोगों के प्रयासों ने, हमारी कम्युनिटी को इन बेहद मुश्किल चुनौतियों में आगे बढ़ने में मदद की है। हम हमारे कारोबारियों और उनके कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करते हैं। सिटी, उनके साथ हमारा काम जारी रखने के लिए उत्साहित है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमें बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन की एनुअल मेट्रो रैंकिंग्स रिपोर्ट में, फूड प्रोसेसिंग लीडर्स श्रेणी में, लगातार दूसरे वर्ष, #1 रैंकिंग मिलने पर गर्व है। हमारी समर्पित इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम, जिसने इस सेक्टर को बनाने और इसकी सहायता करने के लिए काम किया और इस सेक्टर के सभी कारोबारियों और उनके श्रमिकों का धन्यवाद। कारोबार को बनाए रखने और इसके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम हमारे शानदार मौजूदा कारोबारियों की सहायता करने के साथ-साथ, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में नए कारोबारियों को लाने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी कारोबार कम्युनिटी ब्रैम्पटन की रीढ़ की हड्डी है और सिटी में हमारी टीम, उनकी सफलता में सहायता करने के लिए, हर संभव प्रयास करने के लिए समर्पित है। हमें हमारे फूड और बेवरेज सेक्टर के प्रयासों – और हमारी समर्पित इकोनॉमिक टीम – को लगातार दूसरे वर्ष, बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन से #1 की रैंकिंग मिलने पर गर्व है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)